

Date: August 12, 2023

1. The Manager- Listing National Stock Exchange of India Limited

(Scrip Code: NAUKRI)

2. The Manager- Listing BSE Limited

(Scrip Code: 532777)

Sub: <u>Intimation of Publication of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for</u> the Quarter ended June 30, 2023

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023 published in the following editions:

- Financial Express (National Daily newspaper) on August 12, 2023
- Jansatta (Daily newspaper of the State) on August 12, 2023

Submitted for your information & records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Info Edge (India) Ltd.

Chintan Thakkar Whole-time Director & CFO **FINANCIAL EXPRESS**

NARCL plan for Srei firms gets NCLT nod

MITHUN DASGUPTA Kolkata, August 11

THE KOLKATA BENCH of the National Company Law Tribunal (NCLT) on Friday approved the resolution plan of state-backed National Asset Reconstruction Company (NARCL) for two insolvent Srei companies under the corporate insolvency resolution process (CIRP).

It will be the first acquisition by the governmentowned ARC.

The consolidated committee of creditors (CoC) for the two companies — Srei Infrastructure Finance (SIFL) and Srei Equipment Finance (SEFL) — in February had approved the resolution plan of NARCL with the highest voting among bidders.

"National Company Law Tribunal, Kolkata has orally pronounced an order today approving the resolution plan submitted by National Asset Reconstruction Company with respect to the corporate insolvency resolution process of the companies under Section 31 of the IBC," Srei Infrastructure Finance said in a stock exchange filing.

Notably, the resolution plan of the government-owned ARC was approved with a 89.2% voting share of the consolidated CoC for Srei Infrastructure Finance (SIFL) and Srei Equipment Finance (SEFL). While the resolution plan submitted by Authum Investment and Infrastructure received 84.86% vote, that of the consortium of Varde Partners and Arena Investors got 9% vote.

Three bidders — NARCL, the consortium of Varde Partners and Arena Investors, and Authum Investment — had participated in the challenge mechanism process, adopted by the CoC, to acquire the two NBFCs under the CIRP.

The administrator of the insolvent companies, Rajneesh Sharma, received the Reserve Bank of India's 'fit and proper'approval for NARCL on March 23.

After the challenge mechanism process ended, NARCL's offer of ₹5,555 crore in net present value (NPV) terms, which includes an upfront



AT A GLANCE

- It will be the first acquisition by the governmentowned ARC
- NARCL's offer of ₹5,555 crore in net present value terms, which includes an upfront cash of ₹3,180 crore, was found to be highest

cash of ₹3,180 crore, was found to be the highest. The bad bank's gross offer stands at over ₹14,000 crore, including cash and a committed amount of more than ₹6,500 crore. The gross offer includes optionally convertible debentures (OCD) of around ₹8,000 crore, and it would be redeemed on recovery. Putting together all the components, financial creditors would be able to recover over 40% of the amount admitted as claims.

Authum Investment and Infrastructure's bid of ₹5,526 crore, in NPV terms, was adjudged the second-highest. The resolution plan submitted by the consortium of Varde Partners and Arena Investors consisted of a financial bid of around ₹4,680 crore in terms of NPV, including ₹3,250 crore of upfront cash. The insolvency proceedings

against SIFL and SEFL commenced in October 2021 after the insolvency petitions filed by the Reserve Bank of India were approved by the Kolkata bench of the NCLT.

The total admitted claims of financial creditors are ₹32,750.22 crore. State Bank of India, Punjab National Bank, Axis Bank, HDFC Bank, Union Bank of India, Canara Bank, IDBI Bank, UCO Bank and Indian Overseas Bank, among others, are the financial creditors to the firms.

Reliance

Phone: 022-3555 5000. Email: investor:relations@ril.com CIN: L17110MH1973PLC019786

Regd.office: 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

NOTICE

NOTICE is hereby given that the following certificate(s) issued by the Company are stated

Sr. No.	Folio No.	Name / Joint Names	Shares	Certificate Nos. From - To	Distinctive Nos. From - To
Ī	3164675	Avinash Ganesh Lamaye	10	596394-394	17044120-129
8	1000000000	Vijaya Ganesh Limaye	6	991106-106	25071263-268
		101 (8)	14	2171573-573	43021061-074
			5	3112486-486	49604373-377
			16	5008591-591	82602125-140
			13	6384143-143	135084405-417
			13	12905422-422	259226790-802
			308	66724701-701	6881719340-647
2	50987671	Babita Kumari Sadh	40	10787342-342	193328333-372
7	80.0000000000	MANAGEMENT OF STREET	40	53320240-241	1248147275-314
			80	62223765-765	2186479261-340
			160	66419285-285	6854484742-901
3	54589794	Baru Ram	40	10716586-586	191832260-299
Ĺ		Sher Singh	40	53301088-089	1247764235-274
		NAME OF THE PARTY	80	62250901-901	2188803581-660
			160	66452246-246	6857503698-857
4	72378733	D.N.Vasudeva	30	14878829-830	396139695-724
9		MEDIANISO E	30	53074642-643	1243946020-049
			60	62531727-727	2212837316-375
			120	66802856-856	6887868826-945
5	10228841	Kaushikkumar D Modi	47	12997788-788	261410458-504
	547967138431	AND THE PARTY OF THE PARTY	175	62323067-067	2194108651-825
6	9462406	Meenakshi Sethi	2	12265129-129	253851835-836
			202	54796608-612	1327580958-159
			200	55783886-889	115355809-008
7	9397931	Renuka Bal	90	7988779-780	159866532-621
	14.300.000	Provash Chandra Bal	90	62452859-859	2206923328-417
			180	66706110-110	6879943474-653
8	9429603	Sarla Ajitsinh Jesrani	200	5739706-706	114010509-708
	21/2002/17	Ajitsinh K Jesrani	50	7970184-184	158966263-312
		#41/00.000################################	250	54803084-088	1327847257-506
9	50994830	Sunita Brijmohan Tapria	40	53371576-577	1249173995-034
8	SCHOOLS		40	59161827-827	205271850-889
			80	62474241-241	2208757432-511
			160		6882321585-744
10	50987370	Vinay Kumar Sadh	40	10787340-340	193328273-312
	0.0000000000000000000000000000000000000		40	53320238-239	1248147235-274
			89	62622054-054	2219625910-998
			178	66419284-284	6854484564-741
11	50956245	Vishnu Deva Narayan	89		2218619490-578
0.30	RESERVED A		178		6895509239-416
12	68372267	Zumberben Maniklal	25		390616175-199
1050	12:102:12:00:01	Oswal	25		1167742578-602
		50.000000	50		2208448143-192
			100	66726546-546	6881901450-549

The Public is hereby warned against purchasing or dealing with these securities any way. Any person(s) who has / have any claim in regard of the securities, should lodge such claim with the Company's Registrar and Transfer Agent viz. "KFin Technologies Limited", Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, within Seven (7) days from the date of publication of this notice, failing which, the Company will proceed to issue letter(s) of confirmation in lieu of duplicate certificate(s) in respect of the aforesaid securities.

3885

Place: Mumbai Date : August 11, 2023

for Reliance Industries Limited Savithri Parekh Company Secretary and Compliance Officer

BoB, Canara, BoM hike lending rates by up to 10 bps

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 11

A NUMBER OF public sector banks, including Bank of Baroda (BoB) and Canara Bank, raised the marginal cost of funds-based lending rates (MCLR) by up to 10 basis points even though RBI retained policy rate on Thursday. The move will make EMIs linked to MCLR expensive.

The one-year tenor MCLR is the rate against which most consumer loans are tied to.

The revised one-year MCLR would be 8.70% as against the existing rate of 8.65%, BoB said in a regulatory filing. The new rate would be effective from August 12, it said.

Canara Bank raised its MCLR by 5 basis points to 8.70% effective August 12.

Bank of Maharashtra (BoM) has increased its MCLR by 10 basis points. With the hike, the rate of one-year MCLR rises to 8.60%, compared with 8.50%, BoM said in a filing. The revised rate is effective from August 10, 2023, it said.

Zerodha-smallcase JV set to begin MF operations

ZERODHA CO-FOUNDER **NITHIN** Kamath on Friday said the company's joint venture with smallcase has received the final nod for its mutual fund operations. "We just received the final

approval for the @ZerodhaAMC we are building in partnership with @smallcaseHQ," said Kamath on platform X. With only 60-80 million

unique equity and MF investors put together, the shallow participation in the Indian markets provides a challenge and an opportunity, he pointed out.

—FE BUREAU

FROM THE FRONT PAGE

PLI bill to rise to ₹13,000 crore by FY24-end

THERE IS also a proposal for a new version of the PLI scheme for advanced steel manufacturing and chemicals and petrochemicals. "These are in various stages of inter-ministerial consultations," Singh said. He also said that some of the PLI schemes would need tweaking or course correction, "some minor and some major" and would require high-level approvals.

Under the PLI scheme, support is given for five years for new units that are given approvals after bidding. So far, 733 applications have been approved and investments of ₹78,000 crore have been made. PLI applicants tal sales of ₹6 trillion and ₹2.6 trillion exports. "In the PLI for white goods sector, which is directly being

have also committed incremen-

run by the DPIIT, the kind of companies that we wanted to bring into India have come. Factories are being established and sales will begin from September-October," Singh said. The number of applicants would increase when there is a new round of bidding. In advanced chemistry cell PLI for batteries, against the capacity of 50 GW, bids were received for 30 GW and one applicant was later weeded out. There will be a fresh round of bidding for the sector where new applications could be made.

A good part of the PLI outlay would be exhausted during the time period of the scheme.

"Savings that we anticipated are already being considered for other PLI schemes or for restructured PLI schemes within the sectors,"he said. The schemes for telecom, electronics manufacturing, food processing, pharma, medical devices and white goods

are doing well, while others need

more push.

PLI scheme along with government policies and quality control orders (QCOs) that are being issued at regular intervals are part of the government's plan to increase India's manufacturing base, Singh said. The QCOs in toys along with

higher tariff barriers in recent years have brought down imports by 70% and increased exports by 60%. "We want to ensure that the success seen in toys is replicated in other areas as

well," the secretary said.

The government will come up with 60 QCOs this year for consumer goods, rubber, paper and light engineering items with an aim to contain imports of substandard goods and boost domestic manufacturing. So far, 33 QCOs for over 127 products such as ACs, refrigerators, pipes, and safety valves have been issued.

Adani Ports auditor Deloitte to resign

IT'S NOT the first time an auditor has expressed reservations about Adani's companies. SR Batliboi, a member firm of Ernst & Young, has also repeatedly issued qualified opinions on the financials of Adani Power, while

a member of global accounting giant KPMG resigned as co-auditor of Adani Green Energy in 2021 and turned down a request by the conglomerate to audit some of its other companies amid heightened scrutiny of India's accounting industry, Bloomberg News has previously reported.

The Adani Group has previously said it's compliant with Indian laws and welcomes Sebi's investigation. The Hindenburg broadside had at one point wiped more than \$150 billion of market value from Adani's listed companies. The group has in recent months disclosed fresh fundraising plans, raised billions from GQG Partners and Qatar Investment Authority and sought refinancing with international banks. — **BLOOMBERG**



Registered Office:

IFCI Tower, 61 Nehru Place New Delhi-110 019 Website: www.ifciltd.com

CIN: L74899DL1993GOI053677





EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) **FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023**

(₹ in crores)

Particulars			Standalone Results				Consolidated Results				
		Quarter ended 30/06/23 (Unaudited)	Quarter ended 31/03/23 (Unaudited)	Quarter ended 30/06/22 (Unaudited)	Year ended 31/03/23 (Audited)	Quarter ended 30/06/23 (Unaudited)	Quarter ended 31/03/23 (Unaudited)	Quarter ended 30/06/22 (Unaudited)	Year ended 31/03/23 (Audited)		
1	Total income from operations	77.37	146.65	115.39	545.26	324.36	426.48	317.02	1,518.87		
2	Net Profit / (loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(169.96)	(170.60)	(262.98)	(185.57)	(127.59)	(171.62)	(213.42)	27.32		
3	Net Profit / (loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(169.96)	(170.60)	(262.98)	(185.57)	(128.09)	(172.32)	(214.48)	26.08		
4	Net Profit / (loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(160.97)	(232.50)	(232.00)	(287.58)	(129.36)	(241.18)	(196.77)	(119.78		
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(159.50)	(239.22)	(240.54)	(319.35)	(161.84)	(494.58)	498.99	1,149.13		
6	Equity share capital (Face Value of Rs.10/- each)	2,489.61	2,195.93	2,102.99	2,195.93	2,489.61	2,195.93	2,102.99	2,195.93		
7	Other equity (as per annual audited balance sheet as at 31st March)	8401	67	(#0)	(1,569.83)	33		28	1,570.79		
8	Earnings per share (not annualised for the interimperiods):				3				0		
	(a) Basic (₹)	(0.65)	(1.06)	(1.10)	(1.31)	(0.56)	(1.16)	(0.99)	(0.95		
	(b) Diluted (₹)	(0.65)	(1.06)	(1.10)	(1.31)	(0.56)	(1.16)	(0.99)	(0.95		

1 The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 11th August 2023. These results have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company, M/s M.K. Aggarwal & Co, Chartered Accountants.

2 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website, www.ifciltd.com.

3 For the items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to Stock Exchange websites

(www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website, www.ifciltd.com.

Place: New Delhi Date: 11th August, 2023







BY ORDER OF THE BOARD Sd/-(Manoj Mittal) Managing Director and Chief Executive Officer

(naukri,com

Quadrangle infoedge

Vshiksha

Jeevansathi.

Amount in ₹ (Mn)

INFO EDGE (INDIA) LIMITED

Regd. Office: Ground Floor, GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi - 110019 CIN: L74899DL1995PLC068021, Tel no.: 0120-3082000, Fax: 0120-3082095, Website: www.infoedge.in, Email: investors@naukri.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

Results on Standalone Basis Results on Consolidated Basis Particulars 3 months Preceding 3 **Corresponding 3** Year ended 3 months **Preceding 3 Corresponding 3** Year ended months ended in 31/03/2023 31/03/2023 ended months ended months months ended in 30/06/2023 ended the previous year 30/06/2023 ended the previous year 31/03/2023 30/06/2022 31/03/2023 30/06/2022 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited) 1. Total Income from operations (net) 5,842.91 5,639.55 5,076.59 23,456.91 21,586.19 6,259.47 6,047.84 5,472.65 2. Net profit/(loss) for the period/year 6,498.64 2,666.94 2,500.36 1,941.52 9,106.79 2,167.05 3,394.49 (3,494.90)(before tax, exceptional items) 3. Net profit/(loss) for the period/year 2,666.94 2,312.91 1,941.52 2,167.05 1,406.12 6,159.34 (4,469.68)3,394.49 before tax (after exceptional items) 4. Net Profit/(loss) for the period/year 1,999.03 4,111.93 (704.59)1,789.32 1,484.26 1,474.06 (5,031.94)2,924.31 after tax (36,856.33) 27,465.73 (8,301.85)(28,233.14)(29,322.07)30,019.04 (33,419.72)Total comprehensive income/(loss) (4,147.67)for the period/year [comprising profit/(loss) for the period/year (after tax) and other comprehensive income/(loss) (after tax)] 6. Equity Share Capital 1,291.84 1,291.84 1,289.84 1,291.84 1,291.84 1,291.84 1,289.84 1,291.84 7. Reserve (excluding Revaluation 107,974.70 132,690.12 Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year Earning per share (of ₹ 10 each) (not annualised) a) Basic - Profit/(loss) after tax 15.49 13.87 11.54 31.91 12.29 (21.15)13.91 (8.34)(after exceptional items) a) Basic - Profit/(loss) after tax 15.49 15.32 54.78 12.29 (13.59)13.91 11.54 31.18 (before exceptional items) b) Diluted - Profit/(loss) after tax 15.44 13.82 12.25 (21.15)(8.34)11.48 31.81 13.84 (after exceptional items) b) Diluted - Proft/(loss) after tax 15.44 15.37 12.25 (13.59)13.84 31.08 11.48 54.61 (before exceptional items)

Note:

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the Quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website (www.infoedge.in).
- 2. The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards(Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Stardards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

Place: Noida Date: August 11, 2023

Managing Director DIN: 01189953

New Delhi

Hitesh Oberoi

financiale

Total

www.ril.com

BERVIN INVESTMENT & LEASING LIMITED

CIN: L65993DL1990PLC039397 607, ROHIT HOUSE, 3, TOLSTOY MARG, NEW DELHI-110001

Email ID: secretary@bervin.com | Website: www.bervin.com STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL

	V	G G/	(Amo	unt in Lacs	
		Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended	
	Particulars	30/06/2023	30/06/2022	31/03/2023	
	Service and the service of the servi	Unaudited	Unaudited	Audited	
	Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period before tax	1,211.13	768.85	1,086.38	
	(before Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax	1,160.07	748.97	(1,002.78)	
	(after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after	1,160.07	748.97	(1,002.78)	
	Exceptional and/or Extraordinary items)	1,160.07	748.97	(1,002.78)	
	Other Comprehensive income Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after	W 853	107.5	(993.63)	
	tax) & Other Comprehensive Income (after tax)]	1,160.07	748.97	(1,996.41)	

589.81

1.215.24

19.67

19.67

31/03/2023

589.81

3.210.38

31/03/2022

12.16

12.16

589.81

1,215,24

17.00

31/03/2023

(for continuing and discontinued operations) -(2) Diluted

Equity Share Capital

previous year

No Leasing Business has been undertaken during the quarter. . The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter taken on record and

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as

shown in the Audited Balance Sheet of the

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)

approved by Board of Directors at their meeting held on 11.08.2023. Figures for the guarter ended 30th June, 2023 and year ended 31st March 2023 have been

regrouped wherever necessary to make them comparable with figures of the current quarter ended 30th June, 2022 As the Company is engaged in a single primary business segment, the disclosure requirement of Accounting Standard (AS-17) 'Segment Reporting' notified under Section 133 of the

2014 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 are not applicable. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges for the quarter ended 30 June, 2023 under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of the same is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) & Company's website (www.bervin.com)

प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,

सीआईएन : L32104DL1979PLC009590, वेबसाइट: www.pel-india.in

पंजीकृत कार्यालयः डी-1081, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली -110025

30.06.2023 को समाप्त तिमाही के लिए

अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

विवरणों

अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से

पहले. अपवादात्मक और / या असाधारण

कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध

लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और /

कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध

लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और / या

अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि

असाधारण वस्तुएं के बाद प्रति शेयर आय

वेबसाइट www.pel-india.in पर उपलब्ध हैं।

(कर के बाद) के लिए संयुक्त लाभ /

या असाधारण आइटम के बाद,)

असाधारण आइटम के बाद,)

(हानि) और अन्य व्यापक आय

(ईपीएस)(प्रत्येक 10 रुपये की)

प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी

(कर के बाद))

(वार्षिक नहीं) बेसिक

तरलीकृत

समीक्षा की है।

स्थानः नोएडा, दिनांकः 11.08.2023

परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)

आइटम)

Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules,

For and on behalf of Board of Directors

30.06.2023

को समाप्त

तिमाही

अलेखापरीक्षित

660

(108)

(108)

(78)

(78)

1,385

(0.56)

(0.56)

उपरोक्त विवरण 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए विनियमन (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत बीएसई लिमिटेड के साथ दायर इंड एएस वे

अनुसार तिमाही वित्तीय परिणाम के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। वित्तीय परिणाम का पूर्ण प्रारूप बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की

2) 30 जून, 2023 को समाप्त पहली तिमाही के लिए कंपनी के उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम की समीक्षा 11 अगस्त, 2023 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित

स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड सीआईएन: L51100DL1989PLC034797

रजि. कार्यालयः डब्ल्यू-39, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-2, नई दिल्ली-110020 टेलीफोनः 011-41067060 ,ईमेलः investor@swissmilitaryshop.com, वेबसाइटः www.swissmilitaryshop.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित होने वाली 34वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम'') की सूचना सदस्यों से अनूरोध है कि वे ध्यान दें कि कंपनी के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार 15 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल ('ओएवीएम') माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लाग प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर ("सेबी ") के परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक मई 12 2020 के साथ पठित सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी२ / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी 2023 के अनुपालन में एजीएम के नोटिस में निर्धारित अनुसार व्यवसाय करने हेतु आयोजित की जाएगी। उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 34वीं एजीएम आयोजित करने की सूचना केवल कंपनी के सदस्यों और अन्य व्यक्ति इसके हकदार हैं ,को पंजीकृत ईमेल आईडी (कंपनी / डिपॉंजिटरी के साथ पंजीकृत) पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.swissmilitaryshop.com के निवेशक संबंध अनुभाग, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 108 के अनुसार 34वीं एजीएम में विचार के लिए प्रस्तावों को एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से पेश किया जाएगा तदनुसार, कंपनी ने एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग के माध्यम से सदस्यों को अपना वोट देने व लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। ई–वोटिंग की प्रक्रिया पर निर्देश, जिसमें भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, ई–वोटिंग के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं, सहित, नोटिस के भाग के रूप में प्रदान किए जाएंगे। 34वीं एजीएम में वीसी के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा। एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकत कार्यालय में आयोजित मानी जाएगी. जिसे एजीएम क रिष्यान माना जाएगा। एजीएम में ई—वोटिंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जो रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डालेंगे, वे एजीएम में वोट कर सकेंगे।

भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकत नहीं किया है, उनसे अनरोध है कि वे फॉर्म आईएसआर–1 की भौतिक प्रति आरटीए को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, यूनिट– स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 1ई / 13, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 में जमा करके या कंपनी के investor@swissmilitaryshop.com पर ईमेल करके या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानि अलंकिट असाइनमेंट लिमिटेड को rta@alankit.com को ईमेल भेजकर अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर

डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य. जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस ('डीपी') के साथ अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर उन डीपी के साथ पंजीकृत / अपडेट करें जिसके साथ वे अपना डीमैट खाते बनाए हुए है। सदस्य ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 09 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में रु. 0.16 / – प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश आगामी एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है और एजीएम की तारीख से 30 दिनों के भीतर विभिन्न ऑनलाइन ट्रांसफर मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है और जिनके नाम कट–ऑफ तिथि यानी 08 सितंबर 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देंगे। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके लिए लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / चेक डाक सेवाओं की उपलब्धता के आधार फ पंजीकत पते पर भेजे जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनरोध है कि वे अपने

सदस्य ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित में कहा गया है कि 0 अप्रैल, 2020 के बाद कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की आवश्यकता होगी। हमें उचित टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, जैसा लागू हो, सदस्यों से अनुरोध है कि वे कर छूट

विवरण, यदि कोई हो, को कंपनी को investor@swissmilitaryshop.com पर या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात अलंकिट असाइनमेंट लिमिटेड rta@alankit.com पर ईमेल भेजकर जमा करें।

सदस्य श्री अभिनव कुमार अग्रवाल –उप महाप्रबंधक, यूनिट–स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गूड्स लिमिटेड, अलंकित

असाइनमेंटस लिमिटेंड, अलंकित हाउस, 1ई / 13, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110055 य

rta@alankit.com पर या 011-4254-1100 पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए कंपनी के सदस्य श्री विकास जैन, कंपनी सचिव, स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड़स लिमिटेड, डब्ल्यू—39, ओखला

|इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–2, नई दिल्ली–110020, संपर्क नंबर–011–41067060 से भी संपर्क कर सकते हैं और

ऑडिट कमेटी द्वारा की गयी। कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने उपरोक्त परिणामों की सीमित

Place: New Delhi Date: 11.08.2023

S. K. Murgai (Director) DIN: 00040348

(लाख रू. मे

30.06.2022

को समाप्त

तिमाही

अलेखापरीक्षित

996

10

10

1,385

0.07

0.07

बोर्ड की ओर से

प्रबंध निदेशक

अशोक कुमार कनोडिया

डीआईएन: 00002563

31.03.2023

को समाप्त

तिमाही

लेखापरीक्षित

977

41

41

32

40

1,385

0.23

0.23

प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए

बी -2, विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली –110003 कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में,

सार्वजनिक सूचना

समक्ष केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र,

मैसर्स ए डी फर्निचर प्राइवेट लिमिटेड CIN: U20299DL2000PTC107389 जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-166, खसरा नंबर 263 / 2, न्यू अशोक नगर, दिल्ली पूर्वी दिल्ली— 110096 में रितथ है के मामले में

सर्वसाधारण को इतदद्वारा सचना दी जाती है कि 13 जुलाई, 2023 को आयोजित विशेष आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन के पुष्टीकरण हेत् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी केंद्र सरकार को आवेदन दाखिल करेगी ताकि कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय का स्थानान्तरण "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'उत्तर प्रदेश राज्य' में करने का अधिकार प्राप्त हो जाये ।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से प्रभावित हो, तो वह हलफनामें के विरोध के आधार पर प्रभावित होने वाले अपने/अपनी हित की प्रकृति का जिक्र कर अपने / अपनी आपत्ति इस सचना की प्रकाशन तिथि से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, नॉर्थन क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को दाखलि करें अथवा पंजीकृत डाक से उनके पास पहुंच जाए तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को भी उपर्युक्त उल्लिखित पते पर पंजीकृत कार्यालय में भिजवाये ।

वास्ते तथा उनके लिए मैसर्स ए डी फर्निचर प्राइवेट लिमिटेड स्थानः नई दिल्ली जोध सिंह दिनांक: 11.08.2023 निदेशक

ढीआई एन: 09485273 **पता**: टावर— सी-2 / फ्लैट नं. 1502, विलयो काउंटी, सैक्टर-121, नोएडा, जीबी नगर, उत्तर प्रदेश-201301

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

	30.06.2023 का समाप्त ातमाहा क ालए स्टंडअलान अलखापराक्षित ावत्ताय पारण	॥मा का विवरण	(સાશ ભા	ख रुपए म)	
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त चालू अवधि हेतु वर्ष तक के आंकड़े	गत वर्ष समाप्त संगत तिमाही	
		30.06.2023 अलेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित	30.06.2022 अलेखापरीक्षित	
1	प्रचालनों से कुल आय (निवल)	29.65	10.17	(46.34	
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	22.43	(30.59)	(48.89)	
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के पश्चात)	22.43	(30.59)	(48.89)	
4	कर-पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के पश्चात)	22.43	(30.59)	(48.89	
5	अवधि हेतु कुल च्यापक आय (अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ/हानि तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल)	22.43	(30.59)	(48.89	
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 10 प्रत्येक का अंकित मूल्य)	470.28	470.28	470.28	
7	आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर जैसा कि गत वर्ष के तुलन-पत्र में प्रदर्शित है)	(79.79)	(102.22)	- 5	
8	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) बेसिक (रु. में) : डाइल्यूटेड (रु. में)	0.48 0.48	(0.65) (0.65)	(1.05) (1.06)	

(i) 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। (ii) उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर अलेखापरीक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तत प्रारूप का एक सारांश है। अलेखापरीक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम का पूर्ण प्रारूप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.integraprofit.com इंटेग्रा कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड के लिए

स्थानः नर्ड दिल्ली

प्रबंध निदेशक डीआईएन नंबर ०००३०४७

इन्डो गल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN: L7490DL1981PLC011425

4237/11, II रा तल, नरेन्द्र भवन 1, अंसारी रोड,दिरयागंज, नई दिल्ली-110002 वेबसाइटः www.indogulfind.com ई-मेलः rj.headoffice@gmail.com 30 जुन, 2023 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों का सार सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 (1) (बी)

क्रम	विवरण	समाप्त	समाप्त	समाप्त
सं.		तिमाही	तिमाही	तिमाही
		30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	5255.62	5866.75	3076.27
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(कर तथा अपवादित मदों से पूर्व)	191.32	152.89	52.33
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(विशिष्ट मदों के बाद)	191.32	152.89	52.33
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(विशिष्ट मदों के बाद)	138.10	92.22	72.42
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (लाभ/हानि) तथ	138.10	92.22	72.42
	अन्य व्यापक आय (कर से बाद) लाभ/(हानि) से शामिल)			
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	95.67	95.67	95.67
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर जैसा कि पूर्व वर्ष के	-	-	
	अंकेक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित है।			
8.	आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का)		0 0	_
	(तिमाही आंकडों के लिये वार्षिकीकृत नहीं)			
	क) मूल (रु.)	1.44	0.96	0.76
	ख) तरल (रु.)	1.44	0.96	0.76

1) उपरोक्त सेबी (सुचीयन दायित्व एवं अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखित वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तत प्रारूप का सार है। वार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइ www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.indogulfind.com पर उपलब्ध है। ख)कम्पनी के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियमावली, 2016 द्वारा यथा-संशोधि कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) के अंतर्गत अधिसुचित भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुसार तैयार किया गया है।

अप्रैल, 2015 की संक्रमण तिथि के साथ 1 अप्रैल, 2016 से कंपनी ने इंड ए एस अपनाई है एवं तदनुसार इन परिणामों (दिसम्बर, 2016 को समाप्त अवधि सहित) को इंड ए एस 101 के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। निदेशक मंडल के लिए इन्डो गल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड



पंजीकृत कार्यालयः

आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 वेबसाइटः www.ifciltd.com

CIN: L74899DL1993GOI053677

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के गैर लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टेण्डअलोन और समेकित) का सार



(करोड़ रुपए में)

राजेश जैन

DIN: 01200520

निदेशक

स्टेण्डअलोन परिणाम समेकित परिणाम 31.03.23 को 30.06.23 को 31.03.2023 क 豖. 30.06.23 को 31.03.23 को 30.06.23 को 31.03.2023 को 30.06.23 को विवरण समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष समाप्त वर्ष (गैर लेखा-परीक्षित) (गैर लेखा-परीक्षित) (गैर लेखा-परीक्षित) (गैर लेखा-परीक्षित) (लेखा-परीक्षित) (गैर लेखा-परीक्षित) (गैर लेखा-परीक्षित) लेखा-परीक्षित) 77.37 146.65 545.26 324.36 426.48 1,518.87 115.39 317.02 1 परिचालनों से कुल आय 2 अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या (169.96)(170.60)(262.98)(185.57)(127.59)(171.62)(213.42)27.32 असाधारण मदों से पर्व) 3 कर-पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक (169.96)(170.60)(262.98)(185.57)(172.32)(214.48)26.08 (128.09)और/या असाधारण मदों के पश्चात) 4 कर-पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (160.97)(232.50)(232.00)(287.58)(129.36)(241.18)(196.77)(119.78)(अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के पश्चात) 5 अवधि के लिए कुल समग्र आय (जिसमें अवधि के लिए (159.50)(239.22)(240.54)(319.35)(161.84)(494.58)498.99 1,149.13 (कर-पश्चात) लाभ/(हानि) तथा अन्य समग्र आय कर-पश्चात्) शामिल है} 2,102.99 2,102.99 2,195.93 2,489.61 2,195.93 2,195.93 2,489.61 2,195.93 6 इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/- रुपए) 7 अन्य इक्विटी (३१ मार्च को लेखा-परीक्षित (1,569.83)1,570.79 तुलन-पत्र के अनुसार)

टिप्पणियाः 1. उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की गई और इन्हें निदेशक बोर्ड द्वारा 11 अगस्त, 2023 को हुई बैठक में अनुमोदित किया गया। ये परिणाम कम्पनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक मैसर्स एम.के.अग्रवाल एण्ड कम्पनी. सनदी लेखापाल द्वारा लेखा-परीक्षित किए गए।

(1.10)

(1.10)

(1.06)

(1.06)

2. उपर्युक्त भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रपन्न का सार हैं।

तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रपत्र स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.nseindia.com तथा www.bseindia.com) व कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध है। 3. भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 52(4) में संदर्भित मदों के लिए, प्रासंगिक प्रकटन स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.nseindia.com तथा

www.bseindia.com) व कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध है।

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 11 अगस्त, 2023

(क) बेसिक (रुपए)

(ख) डायल्युटिड (रुपए)







(1.31)

(1.31)

(0.56)

(0.56)

(1.16)

(1.16)

बोर्ड के आदेशानुसार हस्ता/-(मनोज मित्तल) प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(0.99)

(0.99)

(0.95)

(0.95)

1948 से राष्ट्र के विकास में

(0.65)

(0.65)

(naukri,com

8 प्रति शेयर अर्जन (अन्तरिम अविध्यों के लिए गैर-वार्षिकीकत):

Quadrangle infoedge 99 acres

♥shiksha

Jeevansathi

Amount in ₹(Mn)

INFO EDGE (INDIA) LIMITED

Regd. Office: Ground Floor, GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi - 110019 CIN: L74899DL1995PLC068021, Tel no.: 0120-3082000, Fax: 0120-3082095, Website: www.infoedge.in, Email: investors@naukri.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

	Results on Standalone Basis				Results on Consolidated Basis				
Particulars	3 months ended 30/06/2023	Preceding 3 months ended 31/03/2023	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/06/2022	Year ended 31/03/2023	3 months ended 30/06/2023	Preceding 3 months ended 31/03/2023	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/06/2022	Year ended 31/03/2023	
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	
1. Total Income from operations (net)	5,842.91	5,639.55	5,076.59	21,586.19	6,259.47	6,047.84	5,472.65	23,456.91	
Net profit/(loss) for the period/year (before tax, exceptional items)	2,666.94	2,500.36	1,941.52	9,106.79	2,167.05	(3,494.90)	3,394.49	6,498.64	
3. Net profit/(loss) for the period/year before tax (after exceptional items)	2,666.94	2,312.91	1,941.52	6,159.34	2,167.05	(4,469.68)	3,394.49	1,406.12	
4. Net Profit/(loss) for the period/year after tax	1,999.03	1,789.32	1,484.26	4,111.93	1,474.06	(5,031.94)	2,924.31	(704.59)	
5. Total comprehensive income/(loss) for the period/year [comprising profit/(loss) for the period/year (after tax) and other comprehensive income/(loss) (after tax)]	27,465.73	(8,301.85)	(28,233.14)	(29,322.07)	30,019.04	(4,147.67)	(33,419.72)	(36,856.33)	
6. Equity Share Capital	1,291.84	1,291.84	1,289.84	1,291.84	1,291.84	1,291.84	1,289.84	1,291.84	
7. Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year				107,974.70				132,690.12	
Earning per share (of ₹ 10 each) (not annualised)									
a) Basic - Profit/(loss) after tax (after exceptional items)	15.49	13.87	11.54	31.91	12.29	(21.15)	13.91	(8.34)	
a) Basic - Profit/(loss) after tax (before exceptional items)	15.49	15.32	11.54	54.78	12.29	(13.59)	13.91	31.18	
b) Diluted - Profit/(loss) after tax (after exceptional items)	15.44	13.82	11.48	31.81	12.25	(21.15)	13.84	(8.34)	
b) Diluted - Proft/(loss) after tax (before exceptional items)	15.44	15.37	11.48	54.61	12.25	(13.59)	13.84	31.08	

Note:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the Quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website (www.infoedge.in).

2. The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards(Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Stardards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

Place: Noida

Hitesh Oberoi Managing Director

दिनांकः 11 अगस्त, 2023,


स्थानः नई दिल्ली,

संपूर्ण बैंक खाते का विवरण नियत समय सीमा के भीतर अपडेट करें।

investor@swissmilitaryshop.com पर ई–मेल लिख सकते हैं।

इिमेल पते के पंजीकरण / अद्यतन करने की विधि :

www.readwhere.com



कते स्विस मिलिटी कंज्यमर गडस लिमिटेड

निदेशक मंडल के आदेश से

